



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1937 (श10)
(सं0 पटना 1273) पटना, सोमवार, 9 नवम्बर 2015

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

9 नवम्बर 2015

सं0 बी1-3-95/2015-47—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा-73 के उपबंधों के अनुसरण में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के निर्वाचन परिणाम से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या-464/बिहार-वि.स. /2015 दिनांक 09.11.2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव-सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख 09 नवम्बर, 2015/18 कार्तिक, 1937 (शक)

सं० 464/बिहार-वि.स./2015- यतः बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन अपनी अधिसूचना संख्या बी1-3-95/2015-23, बी1-3-95/2015-26, बी1-3-95/2015-32, बी1-3-95/2015-39, बी1-3-95/2015-41 जो क्रमशः 16 सितम्बर, 2015, 21 सितम्बर, 2015, 1 अक्टूबर, 2015, 7 अक्टूबर, 2015 एवं 8 अक्टूबर, 2015 को जारी की गई थी, के अनुसरण में बिहार राज्य के लिए नई विधान सभा के गठन के प्रयोजन हेतु साधारण निर्वाचन कराया गया; और

यतः उक्त साधारण निर्वाचन में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचनों का परिणाम संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा घोषित कर दिया गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 73 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम, उनके सम्बद्ध दल सहित, यदि कोई हो, इस अधिसूचना की अनुसूची में एतद्वारा अधिसूचित करता है।

भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 464/बिहार-वि.स./2015,
दिनांक 09 नवम्बर, 2015 की अनुसूची

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
1	1- वाल्मीकिनगर	धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिन्कु सिंह	निर्दलीय
2	2- रामनगर (अ०जा०)	भागीरथी देवी	भारतीय जनता पार्टी
3	3- नरकटियागंज	विनय वर्मा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
4	4- बगहा	राघव शरण पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
5	5- लौरिया	विनय बिहारी	भारतीय जनता पार्टी
6	6- नौतन	नारायण प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
7	7- चनपटिया	प्रकाश राय	भारतीय जनता पार्टी
8	8- बेतिया	मदन मोहन तिवारी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
9	9- सिकटा	खुशींद उर्फ फिरोज अहमद	जनता दल (यूनाइटेड)
10	10- रक्सौल	अजय कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
11	11- सुगौली	रामचंद्र सहनी	भारतीय जनता पार्टी
12	12- नरकटिया	शमीम अहमद	राष्ट्रीय जनता दल
13	13- हरसिद्धि (अ०जा०)	राजेंद्र कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
14	14- गोविन्दगंज	राजू तिवारी	लोक जन शक्ति पार्टी
15	15- केसरिया	डा० राजेश कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
16	16- कल्याणपुर	सचीन्द्र प्रसाद सिंह	भारतीय जनता पार्टी

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
17	17- पिपरा	श्यामबाबू प्रसाद यादव	भारतीय जनता पार्टी
18	18- मधुबन	राणा रणधीर	भारतीय जनता पार्टी
19	19- मोतिहारी	प्रमोद कुमार	भारतीय जनता पार्टी
20	20- चिरैया	लाल बाबू प्र गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
21	21-ढाका	फैसल रहमान	राष्ट्रीय जनता दल
22	22- शिवहर	शरफुदीन	जनता दल (यूनाइटेड)
23	23- रीगा	अमीत कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
24	24- बथनाहा (अ0जा0)	दिनकर राम	भारतीय जनता पार्टी
25	25- परिहार	गायत्री देवी	भारतीय जनता पार्टी
26	26- सुरसंड	सैयद अबु दौजाना	राष्ट्रीय जनता दल
27	27- बाजपट्टी	डॉ० रंजु गीता	जनता दल (यूनाइटेड)
28	28- सीतामढ़ी	सुनील कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
29	29- रून्नीसैदपुर	मंगिता देवी	राष्ट्रीय जनता दल
30	30- बेलसंड	सुनीता सिंह चौहान	जनता दल (यूनाइटेड)
31	31- हरलाखी	बसंत कुमार	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
32	32- बेनीपट्टी	भावना झा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
33	33- खजौली	सीताराम यादव	राष्ट्रीय जनता दल
34	34- बाबूबरही	कपिल देब कामत	जनता दल (यूनाइटेड)
35	35- बिस्फी	फैयाज अहमद	राष्ट्रीय जनता दल
36	36- मधुबनी	समीर कुमार महासेठ	राष्ट्रीय जनता दल
37	37- राजनगर (अ0जा0)	रामप्रीत पासवान	भारतीय जनता पार्टी
38	38-झंझारपुर	गुलाब यादव	राष्ट्रीय जनता दल
39	39- फुलपरास	गुलजार देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
40	40- लौकहा	लक्ष्मेश्वर राय	जनता दल (यूनाइटेड)
41	41- निर्मली	अनिरुद्ध प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
42	42- पिपरा	यदुवंश कुमार यादव	राष्ट्रीय जनता दल
43	43- सुपौल	बिजेन्द्र प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
44	44- त्रिवेणीगंज (अ0जा0)	वीणा भारती	जनता दल (यूनाइटेड)
45	45- छातापुर	नीरज कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
46	46- नरपतगंज	अनिल कुमार यादव	राष्ट्रीय जनता दल
47	47- रानीगंज (अ0जा0)	अचमित ऋषिदेव	जनता दल (यूनाइटेड)
48	48- फारबिसगंज	विद्या सागर केशरी	भारतीय जनता पार्टी
49	49- अररिया	आबिदुर रहमान	इंडियन नेशनल काँग्रेस
50	50-जोकीहाट	सरफराज आलम	जनता दल (यूनाइटेड)
51	51- सिकटी	विजय कुमार मंडल	भारतीय जनता पार्टी
52	52- बहादुरगंज	मो0 तौसीफ आलम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
53	53- ठाकुरगंज	नौशाद आलम	जनता दल (यूनाइटेड)
54	54- किशनगंज	डा0 मुहम्मद जावेद	इंडियन नेशनल काँग्रेस
55	55- कोचाधामन	मुजाहिद आलम	जनता दल (यूनाइटेड)
56	56- अमौर	अ0 जलील मस्तान	इंडियन नेशनल काँग्रेस
57	57- बायसी	अब्दुस सुबहान	राष्ट्रीय जनता दल
58	58- कसबा	मो0 आफाक आलम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
59	59- बनमनखी (अ0जा0)	कृष्ण कुमार ऋषि	भारतीय जनता पार्टी
60	60- रूपौली	बीमा भारती	जनता दल (यूनाइटेड)
61	61- धमदाहा	लेशी सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
62	62- पूर्णियाँ	विजय कुमार खेमका	भारतीय जनता पार्टी
63	63- कटिहार	तारकिशोर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
64	64- कदवा	शकील अहमद खॉँ	इंडियन नेशनल काँग्रेस
65	65- बलरामपुर	महबूब आलम	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माक्सिसिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
66	66- प्राणपुर	बिनोद कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
67	67- मनिहारी (अ0ज0जा0)	मनोहर प्रसाद सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
68	68- बरारी	नीरज कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
69	69- कोढा (अ0जा0)	पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान	इंडियन नेशनल काँग्रेस
70	70- आलमनगर	नरेन्द्र नारायण यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
71	71- बिहारीगंज	निरंजन कुमार मेहता	जनता दल (यूनाइटेड)
72	72- सिंहेश्वर (अ0जा0)	रमेश ऋषिदेव	जनता दल (यूनाइटेड)
73	73- मधेपुरा	चन्द्र शेखर	राष्ट्रीय जनता दल
74	74- सोनबरसा (अ0जा0)	रत्नेश सादा	जनता दल (यूनाइटेड)
75	75- सहरसा	अरुण कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
76	76- सिमरी बख्तियारपुर	दिनेश चन्द्र यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
77	77- महिषी	डा0 अब्दुल गफूर	राष्ट्रीय जनता दल
78	78- कुशेश्वरस्थान (अ0जा0)	शशि भूषण हजारी	जनता दल (यूनाइटेड)
79	79- गौड़ाबौराम	मदन सहनी	जनता दल (यूनाइटेड)
80	80- बेनीपुर	सुनील चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)
81	81- अलीनगर	अब्दुल बारी सिद्दिकी	राष्ट्रीय जनता दल
82	82- दरभंगा ग्रामीण	ललित कुमार यादव	राष्ट्रीय जनता दल
83	83- दरभंगा	संजय सरावगी	भारतीय जनता पार्टी
84	84- हायाघाट	अमर नाथ गामी	जनता दल (यूनाइटेड)
85	85- बहादुरपुर	भोला यादव	राष्ट्रीय जनता दल
86	86- केवटी	फराज फातमी	राष्ट्रीय जनता दल
87	87- जाले	जिवेश कुमार	भारतीय जनता पार्टी
88	88- गायघाट	महेश्वर प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
89	89- औराई	सुरेन्द्र कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
90	90- मीनापुर	राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव	राष्ट्रीय जनता दल

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
91	91- बोचहाँ (अ0जा0)	बेबी कुमारी	निर्दलीय
92	92- सकरा (अ0जा0)	लाल बाबू राम	राष्ट्रीय जनता दल
93	93- कुढ़नी	केदार प्र० गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
94	94- मुजफ्फरपुर	सुरेश कुमार शर्मा	भारतीय जनता पार्टी
95	95- काँटी	अशोक कुमार चौधरी	निर्दलीय
96	96- बरुराज	नन्द कुमार राय	राष्ट्रीय जनता दल
97	97- पारु	अशोक कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
98	98- साहेबगंज	रामविचार राय	राष्ट्रीय जनता दल
99	99- बैकुण्ठपुर	मिथिलेश तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
100	100- बरौली	मो० नेमतुल्लाह	राष्ट्रीय जनता दल
101	101- गोपालगंज	सुबाष सिंह	भारतीय जनता पार्टी
102	102- कुचायकोट	अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय	जनता दल (यूनाइटेड)
103	103- भोरे (अ0जा0)	अनील कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
104	104- हथुआ	रामसेवक सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
105	105- सिवान	व्यासदेव प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
106	106- जीरादेई	रमेश सिंह कुशवाहा	जनता दल (यूनाइटेड)
107	107- दरौली (अ0जा0)	सत्यदेव राम	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
108	108- रघुनाथपुर	हरिशंकर यादव	राष्ट्रीय जनता दल
109	109- दरौंदा	कविता सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
110	110- बड़हरिया	श्याम बहादुर सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
111	111- गोरेयाकोठी	सत्यदेव प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनतादल
112	112- महाराजगंज	हेम नारायण साह	जनता दल (यूनाइटेड)
113	113- एकमा	मनोरंजन सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
114	114- मांझी	विजय शंकर दूबे	इंडियन नेशनल काँग्रेस

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
115	115- बनियापुर	केदार नाथ सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
116	116- तरेया	मुद्रिका प्रसाद राय	राष्ट्रीय जनता दल
117	117- मढ़ौरा	जितेन्द्र कुमार राय	राष्ट्रीय जनता दल
118	118- छपरा	डा० सी० एन० गुप्ता	भारतीय जनता पार्टी
119	119- गरखा (अ०जा०)	मुनेश्वर चौधरी	राष्ट्रीय जनता दल
120	120- अमनौर	शत्रुघन तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
121	121- परसा	चन्द्रिका राय	राष्ट्रीय जनता दल
122	122- सोनपुर	डॉ० रामानुज प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
123	123- हाजीपुर	अवधेश सिंह	भारतीय जनता पार्टी
124	124- लालगंज	राज कुमार साह	लोक जन शक्ति पार्टी
125	125- वैशाली	राज किशोर सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
126	126- महुआ	तेज प्रताप यादव	राष्ट्रीय जनता दल
127	127- राजापाकर (अ०जा०)	शिवचन्द्र राम	राष्ट्रीय जनता दल
128	128- राघोपुर	तेजस्वी प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
129	129- महनार	उमेश सिंह कुशवाहा	जनता दल (यूनाइटेड)
130	130- पातेपुर (अ०जा०)	प्रेमा चौधरी	राष्ट्रीय जनता दल
131	131- कल्याणपुर (अ०जा०)	महेश्वर हजारी	जनता दल (यूनाइटेड)
132	132- वारिसनगर	अशोक कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
133	133- समस्तीपुर	अखतरुल इस्लाम शाहीन	राष्ट्रीय जनता दल
134	134- उजियारपुर	आलोक कुमार मेहता	राष्ट्रीय जनता दल
135	135- मोरवा	विद्या सागर सिंह निषाद	जनता दल (यूनाइटेड)
136	136- सरायरंजन	विजय कुमार चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)
137	137- मोहिउद्दीननगर	एज्या यादव	राष्ट्रीय जनता दल
138	138- विभूतिपुर	राम बालक सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
139	139- रोसड़ा (अ०जा०)	डा० अशोक कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
140	140- हसनपुर	राज कुमार राय	जनता दल (यूनाइटेड)
141	141- चेरिया बरियारपुर	कुमारी मन्जू वर्मा	जनता दल (यूनाइटेड)
142	142- बछवाड़ा	रामदेव राय	इंडियन नेशनल काँग्रेस
143	143- तेघड़ा	बीरेन्द्र कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
144	144- मटिहानी	नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
145	145- साहेबपुर कमाल	श्रीनारायण यादव	राष्ट्रीय जनता दल
146	146- बेगूसराय	अमिता भूषण	इंडियन नेशनल काँग्रेस
147	147- बखरी (अ0जा0)	उपेन्द्र पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
148	148- अलौली (अ0जा0)	चन्दन कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
149	149- खगड़िया	पूनम देवी यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
150	150- बेलदौर	पन्नालाल सिंह पटेल	जनता दल (यूनाइटेड)
151	151- परबत्ता	रामानन्द प्रसाद सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
152	152- बिहपुर	वर्षा रानी	राष्ट्रीय जनता दल
153	153- गोपालपुर	नरेन्द्र कुमार नीरज	जनता दल (यूनाइटेड)
154	154- पीरपैती (अ0जा0)	राम विलाश पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
155	155- कहलगांव	सदानंद सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
156	156- भागलपुर	अजीत शर्मा	इंडियन नेशनल काँग्रेस
157	157- सुलतानगंज	सुबोध राय	जनता दल (यूनाइटेड)
158	158- नाथनगर	अजय कुमार मंडल	जनता दल (यूनाइटेड)
159	159- अमरपुर	जनार्दन मांझी	जनता दल (यूनाइटेड)
160	160- धोरैया (अ0जा0)	मनीष कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
161	161- बांका	रामनारायण मंडल	भारतीय जनता पार्टी
162	162- कटोरिया (अ0ज0जा0)	स्वीटी सीमा हेम्ब्रम	राष्ट्रीय जनता दल
163	163- बेलहर	गिरिधारी यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
164	164- तारापुर	मेवालाल चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
165	165- मुंगेर	विजय कुमार 'विजय'	राष्ट्रीय जनता दल
166	166- जमालपुर	शैलेश कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
167	167- सूर्यगढ़ा	प्रहलाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
168	168- लखीसराय	विजय कुमार सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
169	169- शेखपुरा	रणधीर कुमार सोनी	जनता दल (यूनाइटेड)
170	170- बरबीघा	सुदर्शन कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
171	171- अस्थायी	जितेंद्र कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
172	172- बिहारशरीफ	डा0 सुनील कुमार	भारतीय जनता पार्टी
173	173- राजगीर (अ0जा0)	रवि ज्योति कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
174	174- इस्लामपुर	चन्द्रसेन प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
175	175- हिलसा	अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव	राष्ट्रीय जनता दल
176	176- नालन्दा	श्रवण कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
177	177- हरनौत	हरिनारायण सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
178	178- मोकामा	अनंत कुमार सिंह	निर्दलीय
179	179- बाढ़	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
180	180- बख्तियारपुर	रणविजय सिंह	भारतीय जनता पार्टी
181	181- दीघा	संजीव चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
182	182- बाँकीपुर	नितिन नवीन	भारतीय जनता पार्टी
183	183- कुम्हार	अरूण कुमार सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
184	184- पटना साहिब	नन्दकिशोर यादव	भारतीय जनता पार्टी
185	185- फतुहा	डॉ0 रामानन्द यादव	राष्ट्रीय जनता दल
186	186- दानापुर	आशा देवी	भारतीय जनता पार्टी
187	187- मनेर	भाई वीरेन्द्र	राष्ट्रीय जनता दल
188	188- फुलवारी (अ0जा0)	श्याम रजक	जनता दल (यूनाइटेड)
189	189- मसौढ़ी (अ0जा0)	रेखा देवी	राष्ट्रीय जनता दल

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
190	190- पालीगंज	जय वर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव	राष्ट्रीय जनता दल
191	191- बिक्रम	सिद्धार्थ	इंडियन नेशनल काँग्रेस
192	192- संदेश	अरुण कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
193	193- बड़हरा	सरोज यादव	राष्ट्रीय जनता दल
194	194- आरा	मोहम्मद नवाज आलम	राष्ट्रीय जनता दल
195	195- अगिआँव (अ0जा0)	प्रभुनाथ प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
196	196- तरारी	सुदामा प्रसाद	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
197	197- जगदीशपुर	राम विशुन सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
198	198- शाहपुर	राहुल तिवारी	राष्ट्रीय जनता दल
199	199- ब्रहमपुर	शम्भु नाथ यादव	राष्ट्रीय जनता दल
200	200- बक्सर	संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
201	201- डुमराँव	ददन यादव	जनता दल (यूनायटेड)
202	202- राजपुर (अ0जा0)	संतोष कुमार निराला	जनता दल (यूनाइटेड)
203	203- रामगढ़	अशोक कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
204	204- मोहनिया (अ0जा0)	निरंजनराम	भारतीय जनता पार्टी
205	205- भभुआ	आनंद भुषण पाण्डेय	भारतीय जनता पार्टी
206	206- चैनपुर	वृज किशोर विंद	भारतीय जनता पार्टी
207	207- चेनारी (अ0जा0)	ललन पासवान	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
208	208- सासाराम	अशोक कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
209	209- करगहर	बशिष्ठ सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
210	210- दिनारा	जय कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
211	211- नोखा	अनिता देवी	राष्ट्रीय जनता दल
212	212- डिहरी	मोहम्मद इलियास हुसैन	राष्ट्रीय जनता दल
213	213- काराकाट	संजय कुमार सिंह	राष्ट्रीय जनता दल

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
214	214- अरवल	रवींद्र सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
215	215- कुर्था	सत्यदेव सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
216	216- जहानाबाद	मुंद्रिका सिंह यादव	राष्ट्रीय जनता दल
217	217- घोसी	कृष्णानंदन प्रसाद वर्मा	जनता दल (यूनाइटेड)
218	218- मखदुमपुर (अ0जा0)	सुबेदार दास	राष्ट्रीय जनता दल
219	219- गोह	मनेज कुमार	भारतीय जनता पार्टी
220	220- ओबरा	बिरेन्द्र कुमार सिन्हा	राष्ट्रीय जनता दल
221	221- नवीनगर	वीरेन्द्र कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
222	222- कुटुम्बा (अ0जा0)	राजेश कुमार	इंडियन नेशनल काँग्रेस
223	223- औरंगाबाद	आनन्द शंकर सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
224	224- रफीगंज	अशोक कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
225	225- गुरुआ	राजीव नन्दन	भारतीय जनता पार्टी
226	226- शेरघाटी	विनोद प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
227	227- इमामगंज (अ0जा0)	जीतन राम माँझी	हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)
228	228- बाराचट्टी (अ0जा0)	समता देवी	राष्ट्रीय जनता दल
229	229- बोघगया (अ0जा0)	कुमार सर्वजीत	राष्ट्रीय जनता दल
230	230- गया टाउन	प्रेम कुमार	भारतीय जनता पार्टी
231	231- टिकारी	अभय कुमार सिन्हा	जनता दल (यूनाइटेड)
232	232- बेलागंज	सुरेन्द्र प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
233	233- अतरी	कुंती देवी	राष्ट्रीय जनता दल
234	234- वजीरगंज	अवधेश कुमार सिंह	इंडियन नेशनल काँग्रेस
235	235- रजौली (अ0जा0)	प्रकाश वीर	राष्ट्रीय जनता दल
236	236- हिसुआ	अनिल सिंह	भारतीय जनता पार्टी
237	237- नवादा	राजबल्लभ प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
238	238- गोविन्दपुर	पुर्णिमा यादव	इंडियन नेशनल काँग्रेस

क्रम संख्या	विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
239	239- वारसलीगंज	अरुणा देवी	भारतीय जनता पार्टी
240	240- सिकन्दरा (अ0जा0)	सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
241	241- जमुई	विजय प्रकाश	राष्ट्रीय जनता दल
242	242-झाझा	रविन्द्र यादव	भारतीय जनता पार्टी
243	243- चकाई	सावित्री देवी	राष्ट्रीय जनता दल

आदेश से,
 आर० के० श्रीवास्तव,
 प्रधान सचिव,
 भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 9th November 2015 / 18 Kartik, 1937 (Saka)

No. 464/BR-LA/2015: - Whereas, in pursuance of Notification numbers B1-3-95/2015-23, B1-3-95/2015-26, B1-3-95/2015-32, B1-3-95/2015-39, B1-3-95/2015-41, issued by the Governor of the State of Bihar on the 16th September, 2015, 21st September, 2015, 1st October, 2015, 7th October, 2015, and 8th October, 2015, respectively under sub-section (2) of Section 15 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), a General Election has been held for the purpose of constituting a new Legislative Assembly for the State of Bihar; and

Whereas, the results of the elections in all Assembly Constituencies in the said General Election have been declared by the Returning Officers concerned;

Now, therefore, in pursuance of Section 73 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, hereby, notifies the names of the members elected for those Assembly Constituencies, along with their party affiliations, if any, in the SCHEDULE of this Notification.

**SCHEDULE TO NOTIFICATION NO. 464/BR-LA/2015, DATED 09TH
NOVEMBER, 2015 OF ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
1	1-Valmiki Nagar	Dhirendra Pratap Singh <i>alias</i> Rinku Singh	Independent
2	2-Ramnagar (SC)	Bhagirathi Devi	Bharatiya Janata Party
3	3-Narkatiaganj	Vinay Varma	Indian National Congress
4	4-Bagaha	Raghaw Sharan Pandey	Bharatiya Janata Party
5	5-Lauriya	Vinay Bihari	Bharatiya Janata Party
6	6-Nautan	Narayan Prasad	Bharatiya Janata Party
7	7-Chanpatia	Prakash Rai	Bharatiya Janata Party
8	8-Bettiah	Madan Mohan Tiwari	Indian National Congress
9	9-Sikta	Khurshid <i>urf</i> Firoj Ahmad	Janata Dal (United)
10	10-Raxaul	Ajay Kumar Singh	Bharatiya Janata Party
11	11-Sugauli	Ramchandra Sahni	Bharatiya Janata Party
12	12-Narkatia	Shamim Ahmad	Rashtriya Janata Dal
13	13-Harsidhi (SC)	Rajendra Kumar	Rashtriya Janata Dal
14	14-Govindganj	Raju Tiwari	Lok Jan Shakti Party
15	15-Kesaria	Dr. Rajesh Kumar	Rashtriya Janata Dal
16	16-Kalyanpur	Sachindra Prasad Singh	Bharatiya Janata Party
17	17-Pipra	Shyambabu Prasad Yadav	Bharatiya Janata Party
18	18-Madhuban	Rana Randhir	Bharatiya Janata Party
19	19-Motihari	Pramod Kumar	Bharatiya Janata Party
20	20-Chiraia	Lal Babu Prasad Gupta	Bharatiya Janata Party
21	21-Dhaka	Faisal Rahman	Rashtriya Janata Dal
22	22-Sheohar	Sharfuddin	Janata Dal (United)

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
23	23-Riga	Amit Kumar	Indian National Congress
24	24-Bathnaha (SC)	Dinkar Ram	Bharatiya Janata Party
25	25-Parihar	Gaytri Devi	Bharatiya Janata Party
26	26-Sursand	Syed Abu Dojana	Rashtriya Janata Dal
27	27-Bajpatti	Dr. Ranju Geeta	Janata Dal (United)
28	28-Sitamarhi	Sunil Kumar	Rashtriya Janata Dal
29	29-Runnisaidpur	Mangita Devi	Rashtriya Janata Dal
30	30-Belsand	Sunita Singh Chauhan	Janata Dal(United)
31	31-Harlakhi	Basant Kumar	Rashtriya Lok Samta Party
32	32- Benipatti	Bhawana Jha	Indian National Congress
33	33-Khajauli	Sitaram Yadav	Rashtriya Janata Dal
34	34-Babubarhi	Kapil Deo Kamat	Janata Dal (United)
35	35-Bisfi	Faiyaz Ahmad	Rashtriya Janata Dal
36	36-Madhubani	Samir Kumar Mahaseth	Rashtriya Janata Dal
37	37-Rajnagar (SC)	Ram Prit Paswan	Bharatiya Janata Party
38	38-Jhanjharpur	Gulab Yadav	Rashtriya Janata Dal
39	39-Phulparas	Guljar Devi	Janata Dal (United)
40	40-Laukaha	Lakshmeshwar Roy	Janata Dal (United)
41	41-Nirmali	Anirudh Prasad Yadav	Janata Dal (United)
42	42-Pipra	Yadubansh Kumar Yadav	Rashtriya JanataDal
43	43-Supaul	Bijendra Prasad Yadav	Janata Dal (United)
44	44-Triveniganj (SC)	Veena Bharti	Janata Dal (United)
45	45-Chhatapur	Niraj Kumar Singh	Bharatiya Janata Party
46	46-Narpatganj	Anil Kumar Yadav	Rashtriya Janata Dal

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
47	47-Raniganj (SC)	Achmit Rishidev	Janata Dal (United)
48	48-Forbesganj	Vidya Sagar Keshri	Bharatiya Janata Party
49	49-Araria	Avidur Rahman	Indian National Congress
50	50-Jokihat	Sarfraz Alam	Janata Dal (United)
51	51-Sikti	Vijay Kumar Mandal	Bharatiya Janata Party
52	52-Bahadurganj	M.D. Tauseef Alam	Indian National Congress
53	53-Thakurganj	Naushad Alam	Janata Dal (United)
54	54-Kishanganj	Dr Mohammad Jawaid	Indian National Congress
55	55-Kochadhaman	Mujahid Alam	Janata Dal (United)
56	56-Amour	Abdul Jalil Mastan	Indian National Congress
57	57-Baisi	Abdus Subhan	Rashtriya Janata Dal
58	58-Kasba	Md. Afaque Alam	Indian National Congress
59	59-Banmankhi (SC)	Krishna Kumar Rishi	Bharatiya Janata Party
60	60-Rupauli	Bima Bharti	Janata Dal (United)
61	61-Dhamdaha	Leshi Singh	Janata Dal (United)
62	62-Purnia	Vijay Kumar Khemka	Bharatiya Janata Party
63	63-Katihar	Tarkishore Prasad	Bharatiya Janata Party
64	64-Kadwa	Shakeel Ahmad Khan	Indian National Congress
65	65-Balrampur	Mahboob Alam	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
66	66-Pranpur	Binod Kumar Singh	Bharatiya Janata Party
67	67-Manihari (ST)	Manohar Prasad Singh	Indian National Congress
68	68-Barari	Neeraj Kumar	Rashtriya Janata Dal
69	69-Korha (SC)	Punam Kumari <i>alias</i> Punam Paswan	Indian National Congress

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
70	70-Alamnagar	Narendra Narayan Yadav	Janata Dal (United)
71	71-Bihariganj	Niranjan Kumar Mehta	Janata Dal (United)
72	72-Singheshwar (SC)	Ramesh Rishidev	Janata Dal (United)
73	73-Madhepura	Chandra Shekhar	Rashtriya Janata Dal
74	74-Sonbarsha (SC)	Ratnesh Sada	Janata Dal (United)
75	75-Saharsa	Arun Kumar	Rashtriya Janata Dal
76	76-Simri Bakhtiarpur	Dinesh Chandra Yadav	Janata Dal (United)
77	77-Mahishi	Dr. Abdul Ghafoor	Rashtriya Janata Dal
78	78-Kusheshwar Asthan (SC)	Shashi Bhushan Hazari	Janata Dal (United)
79	79-Gaura Bauram	Madan Sahni	Janata Dal (United)
80	80-Benipur	Sunil Choudhary	Janata Dal (United)
81	81-Alinagar	Abdul Bari Siddiqui	Rashtriya Janata Dal
82	82-Darbhangha Rural	Lalit Kumar Yadav	Rashtriya Janata Dal
83	83-Darbhangha	Sanjay Saraogi	Bharatiya Janata Party
84	84-Hayaghat	Amar Nath Gami	Janata Dal (United)
85	85-Bahadurpur	Bhola Yadav	Rashtriya Janata Dal
86	86-Keoti	Faraz Fatmi	Rashtriya Janata Dal
87	87-Jale	Jibesh Kumar	Bharatiya Janata Party
88	88-Gaighat	Maheshwar Prasad Yadav	Rashtriya Janata Dal
89	89-Aurai	Surendra Kumar	Rashtriya Janata Dal
90	90-Minapur	Rajeev Kumar <u>urf</u> Munna Yadav	Rashtriya Janata Dal
91	91-Bochaha (SC)	Beby Kumari	Independent
92	92-Sakra (SC)	Lal Babu Ram	Rashtriya Janata Dal
93	93-Kurhani	Kedar Prasad Gupta	Bharatiya Janata Party

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
94	94-Muzaffarpur	Suresh Kumar Sharma	Bharatiya Janata Party
95	95-Kanti	Ashok Kumar Chodhary	Independent
96	96-Baruraj	Nand Kumar Rai	Rashtriya Janata Dal
97	97-Paroo	Ashok Kumar Singh	Bharatiya Janata Party
98	98-Sahebganj	Ramvichar Rai	Rashtriya Janata Dal
99	99-Baikunthpur	Mithilesh Tiwari	Bharatiya Janata Party
100	100-Barauli	Md. Nematullah	Rashtriya Janata Dal
101	101-Gopalganj	Subash Singh	Bharatiya Janata Party
102	102-Kuchaikote	Amrendra Kumar Pandey	Janata Dal (United)
103	103-Bhorey (SC)	Anil Kumar	Indian National Congress
104	104-Hathua	Ramsewak Singh	Janata Dal (United)
105	105-Siwan	Vyasdeo Prasad	Bharatiya Janata Party
106	106-Ziradei	Ramesh Singh Kushwaha	Janata Dal (United)
107	107-Darauli (SC)	Satyadeo Ram	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
108	108-Raghunathpur	Harishankar Yadav	Rashtriya Janata Dal
109	109-Daraundha	Kavita Singh	Janata Dal (United)
110	110-Barharia	Shyam Bahadur Singh	Janata Dal (United)
111	111-Goriakothi	Satyadev Prasad Singh	Rashtriya Janata Dal
112	112-Maharajganj	Hem Narayan Sah	Janata Dal (United)
113	113-Ekma	Manoranjan Singh	Janata Dal (United)
114	114-Manjhi	Vijay Shanker Dubey	Indian National Congress
115	115-Baniapur	Kedar Nath Singh	Rashtriya Janata Dal
116	116-Taraiya	Mudrika Prasad Roy	Rashtriya Janata Dal

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
117	117-Marhaura	Jeetendra Kumar Rai	Rashtriya Janata Dal
118	118-Chapra	Dr. C.N. Gupta	Bharatiya Janata Party
119	119-Garkha (SC)	Muneshwar Chaudhary	Rashtriya Janata Dal
120	120-Amnour	Shatrudhan Tiwary	Bharatiya Janata Party
121	121-Parsa	Chandrika Rai	Rashtriya Janata Dal
122	122-Sonepur	Dr. Ramanuj Prasad	Rashtriya Janata Dal
123	123-Hajipur	Awadhesh Singh	Bharatiya Janata Party
124	124-Lalganj	Raj Kumar Sah	Lok Jan Shakti Party
125	125-Vaishali	Raj Kishore Singh	Janata Dal (United)
126	126-Mahua	Tej Pratap Yadav	Rashtriya Janata Dal
127	127-Raja Pakar (SC)	Shivchandra Ram	Rashtriya Janata Dal
128	128-Raghopur	Tejashwi Prasad Yadav	Rashtriya Janata Dal
129	129-Mahnar	Umesh Singh Kushwaha	Janata Dal (United)
130	130-Patepur (SC)	Prema Chaudhary	Rashtriya Janata Dal
131	131-Kalyanpur (SC)	Maheshwar Hazari	Janata Dal (United)
132	132-Warisnagar	Ashok Kumar	Janata Dal (United)
133	133-Samastipur	Akhtarul Islam Shaheen	Rashtriya Janata Dal
134	134-Ujiarpur	Alok Kumar Mehta	Rashtriya Janata Dal
135	135-Morwa	Vidya Sagar Singh Nishad	Janata Dal (United)
136	136-Sarairanjan	Vijay Kumar Choudhary	Janata Dal (United)
137	137-Mohiuddinnagar	Ejya Yadav	Rashtriya Janata Dal
138	138-Bibhutipur	Ram Balak Singh	Janata Dal (United)
139	139-Rosera (SC)	Dr. Ashok Kumar	Indian National Congress
140	140-Hasanpur	Raj Kumar Ray	Janata Dal (United)

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
141	141-Cheria Bariarpur	Kumari Manju Verma	Janata Dal (United)
142	142-Bachhwara	Ramdeo Rai	Indian National Congress
143	143-Teghra	Birendra Kumar	Rashtriya Janata Dal
144	144-Matihani	Narendra Kumar Singh <i>alias</i> Bogo Singh	Janata Dal (United)
145	145-Sahebpur Kamal	Shreenarayan Yadav	Rashtriya Janata Dal
146	146-Begusarai	Amita Bhushan	Indian National Congress
147	147-Bakhri (SC)	Upendra Paswan	Rashtriya Janata Dal
148	148-Alauli (SC)	Chandan Kumar	Rashtriya Janata Dal
149	149-Khagaria	Poonam Devi Yadav	Janata Dal (United)
150	150-Beldaur	Panna Lal Singh Patel	Janata Dal(United)
151	151-Parbatta	Ramanad Prasad Singh	Janata Dal (United)
152	152-Bihpur	Varsha Rani	Rashtriya Janata Dal
153	153-Gopalpur	Narendra Kumar Niraj	Janata Dal (United)
154	154-Pirpanti (SC)	Ram Vilash Paswan	Rashtriya Janata Dal
155	155-Kahalgaon	Sadanand Singh	Indian National Congress
156	156-Bhagalpur	Ajeet Sharma	Indian National Congress
157	157-Sultanganj	Subodh Roy	Janata Dal (United)
158	158-Nathnagar	Ajay Kumar Mandal	Janata Dal (United)
159	159-Amarpur	Janardan Manjhi	Janata Dal (United)
160	160-Dhauraiya (SC)	Manish Kumar	Janata Dal (United)
161	161-Banka	Ram Narayan Mandal	BharatiyaJanata Party
162	162-Katoria (ST)	Sweety Sima Hembram	Rashtriya Janata Dal
163	163-Belhar	Giridhari Yadav	Janata Dal (United)
164	164-Tarapur	M L Choudhary	Janata Dal (United)

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
165	165-Munger	Vijay Kumar 'Vijay'	Rashtriya Janata Dal
166	166-Jamalpur	Shailesh Kumar	Janata Dal (United)
167	167-Suryagarha	Prahlad Yadav	Rashtriya Janata Dal
168	168-Lakhisarai	Vijay Kumar Sinha	Bharatiya Janata Party
169	169-Sheikhpura	Randhir Kumar Soni	Janata Dal (United)
170	170-Barbigha	Sudarshan Kumar	Indian National Congress
171	171-Asthawan	Jitendra Kumar	Janata Dal (United)
172	172-Biharsharif	Dr. Sunil Kumar	Bharatiya Janata Party
173	173-Rajgir (SC)	Ravi Jyoti Kumar	Janata Dal (United)
174	174-Islampur	Chandrasen Prasad	Janata Dal (United)
175	175-Hilsa	Atri Muni <i>urf</i> Shakti Singh Yadav	Rashtriya Janata Dal
176	176-Nalanda	Shrawon Kumar	Janata Dal (United)
177	177-Harnaut	Hari Narayan Singh	JanataDal (United)
178	178-Mokama	Anant Kumar Singh	Independent
179	179-Barh	Gyanendra Kumar Singh	Bharatiya Janata Party
180	180-Bakhtiarpur	Ranvijay Singh	Bharatiya Janata Party
181	181-Digha	Sanjiv Chaurasia	Bharatiya Janata Party
182	182-Bankipur	Nitin Naveen	Bharatiya Janata Party
183	183-Kumhrar	Arun Kumar Sinha	Bharatiya Janata Party
184	184-Patna Sahib	Nand Kishore Yadav	Bharatiya Janata Party
185	185-Fatuha	Dr. Rama Nand Yadav	Rashtriya Janata Dal
186	186-Danapur	Asha Devi	Bharatiya Janata Party
187	187-Maner	Bhai Virendra	Rashtriya Janata Dal
188	188-Phulwari (SC)	Shyam Rajak	Janata Dal (United)

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
189	189-Masaurhi (SC)	Rekha Devi	Rashtriya Janata Dal
190	190-Paliganj	Jay Vardhan Yadav <i>alias</i> Bachcha Yadav	Rashtriya Janata Dal
191	191-Bikram	Siddharth	Indian National Congress
192	192-Sandesh	Arun Kumar	Rashtriya Janata Dal
193	193-Barhara	Saroj Yadav	Rashtriya Janata Dal
194	194-Arrah	Mohammad Nawaz Alam	Rashtriya Janata Dal
195	195-Agiaon (SC)	Prabhunath Prasad	Janata Dal (United)
196	196-Tarari	Sudama Prasad	Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation)
197	197-Jagdishpur	Ram Vishun Singh	Rashtriya Janata Dal
198	198-Shahpur	Rahul Tiwary	Rashtriya Janata Dal
199	199-Brahampur	Shambhu Nath Yadav	Rashtriya Janata Dal
200	200-Buxar	Sanjay Kumar Tiwari <i>alias</i> Munna Tiwari	Indian National Congress
201	201-Dumraon	Dadan Yadav	Janata Dal (United)
202	202-Rajpur (SC)	Santosh Kumar Nirala	Janata Dal (United)
203	203-Ramgarh	Ashok Kumar Singh	Bharatiya Janata Party
204	204-Mohania (SC)	Niranjan Ram	Bharatiya Janata Party
205	205-Bhabua	Anand Bhushan Pandey	Bharatiya Janata Party
206	206-Chainpur	Brij Kishor Bind	Bharatiya Janata Party
207	207-Chenari (SC)	Lalan Paswan	Rashtriya Lok Samta Party
208	208-Sasaram	Ashok Kumar	Rashtriya Janata Dal
209	209-Kargahar	Bashisth Singh	Janata Dal (United)
210	210-Dinara	Jai Kumar Singh	Janata Dal (United)
211	211-Nokha	Anita Devi	Rashtriya Janata Dal

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
212	212-Dehri	Mohammad Iliyas Hussain	Rashtriya Janata Dal
213	213-Karakat	Sanjay Kumar Singh	Rashtriya Janata Dal
214	214-Arwal	Ravindra Singh	Rashtriya Janata Dal
215	215-Kurtha	Satyadeo Singh	Janata Dal (United)
216	216-Jehanabad	Mundrika Singh Yadav	Rashtriya Janata Dal
217	217-Ghosi	Krishannandan Prasad Verma	Janata Dal(United)
218	218-Makhdumpur (SC)	Subedar Das	Rashtriya Janata Dal
219	219-Goh	Manoj Kumar	Bharatiya Janata Party
220	220-Obra	Birendra Kumar Sinha	Rashtriya Janata Dal
221	221-Nabinagar	Virendra Kumar Singh	Janata Dal (United)
222	222-Kutumba (SC)	Rajesh Kumar	Indian National Congress
223	223-Aurangabad	Anand Shankar Singh	Indian National Congress
224	224-Rafiganj	Ashok Kumar Singh	Janata Dal (United)
225	225-Gurua	Rajiv Nandan	Bharatiya Janata Party
226	226-Sherghati	Vinod Prasad Yadav	Janata Dal (United)
227	227-Imamganj (SC)	Jitan Ram Manjhi	Hindustani Awam Morcha (Secular)
228	228-Barachatti (SC)	Samta Devi	Rashtriya Janata Dal
229	229-Bodh Gaya (SC)	Kumar Sarvjeet	Rashtriya Janata Dal
230	230-Gaya Town	Prem Kumar	Bharatiya Janata Party
231	231-Tikari	Abhay Kumar Sinha	Janata Dal (United)
232	232-Belaganj	Surendra Prasad Yadav	Rashtriya Janata Dal
233	233-Atri	Kunti Devi	Rashtriya Janata Dal
234	234-Wazirganj	Awadhesh Kumar Singh	Indian National Congress

Sl No.	No. & Name of Assembly Constituencies	Name of Elected Member	Party Affiliation, if any
1	2	3	4
235	235-Rajauli (SC)	Prakash Veer	Rashtriya Janata Dal
236	236-Hisua	Anil Singh	Bharatiya Janata Party
237	237-Nawada	Rajballabh Prasad	Rashtriya Janata Dal
238	238-Gobindpur	Purnima Yadav	Indian National Congress
239	239-Warsaliganj	Aruna Devi	Bharatiya Janata Party
240	240-Sikandra (SC)	Sudhir Kumar <i>alias</i> Banty Choudhary	Indian National Congress
241	241-Jamui	Vijay Prakash	Rashtriya Janata Dal
242	242-Jhajha	Rabindra Yadav	Bharatiya Janata Party
243	243-Chakai	Savitri Devi	Rashtriya Janata Dal

By Order,
R.K. SRIVASTAVA,
Principal Secretary
Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1273-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>